

## पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत थाना मड़िहान के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गरीब, असहाय, वृद्ध, जरूरतमंद एवं दिव्यांगजन में वितरित किया गया ट्रैकसूट, कंबल, स्वेटर व खाद्यान्न—

दिनांक 31.12.2020 को पुलिस अधीक्षक मीरजापुर अजय कुमार सिंह द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत चौकी राजगढ़ परिसर में गरीब, असहाय, वृद्ध, जरूरतमंद, दिव्यांगजन सहित क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों में ट्रैकसूट, कंबल, स्वेटर व खाद्यान्न आदि का वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम में नक्सल प्रभावित क्षेत्र कुड़ी, राजगढ़, नदिहार, धनसिरिया, लूसा, सेमरा बरहो इत्यादि ग्राम के जरूरतमंद, गरीब, असहाय, दिव्यांगजन सहित क्षेत्र के युवा खिलाड़ी तथा क्षेत्र के सम्मानित एवं सम्मानित सदस्यगण, ग्रीन ग्रुप स्टॉफ की महिलाएं उपस्थित रही। युवा वर्ग के खिलाड़ियों प्रगति की ओर उन्मुख होने हेतु प्रोत्साहन के रूप में ट्रैकसूट तथा गरीब व असहाय महिलाओं/पुरुषों में ठण्ड के दृष्टिगत कंबल, स्वेटर एवं खाद्यान्न का वितरण करीब 600 लोगो में किया गया। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत वितरण के द्वितीय चरण में जोकि प्रत्येक वर्ष सरकार की ओर से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए प्राप्त अनुदान से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के असहाय, गरीब, जरूरतमंद, दिव्यांगजन में ट्रैकसूट, कंबल, स्वेटर व खाद्यान्न आदि को क्रय करके वितरित किया जाता है। इस दौरान उपस्थित स्थानीय लोगो की मूलभूत समस्याओं के बारे में जानकारी की गयी तथा उन्हें पुलिस का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। स्थानीय पुलिस को भी जनता से निरन्तर समन्वय स्थापित कर उनकी समस्याओं को निष्पक्षता से निस्तारित कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

उक्त कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन महेश सिंह अत्री, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन्स मीरजापुर गोरखनाथ सिंह, पीआरओ पुलिस अधीक्षक मनोज ठाकुर, थाना प्रभारी मड़िहान राजकुमार सिंह, चौकी प्रभारी पटेहरा संतोष कुमार सिंह व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण सहित क्षेत्र के सम्मानित एवं सम्मानित सदस्यगण तथा ग्रीन ग्रुप स्टॉफ की महिलाएं उपस्थित रही।



